RateGain Travel Technologies Limited



August 13, 2024

To,

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: RATEGAIN)

BSE Limited
(BSE: 543417)

Subject: Intimation of Publication of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the publication Un-audited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 in the following newspapers on Tuesday, August 13, 2024.

- Financial Express (English Language National Daily Newspaper All India); and
- Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper Delhi).

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at https://investors.rategain.com.

Yours faithfully,

For RateGain Travel Technologies Limited

(Thomas P. Joshua) Vice President - Legal & Company Secretary Memb. No.: F9839

Encl.: As above

Corporate Office: Club 125, Plot No. A - 3,4,5, Tower A, 4th Floor,

Sector-125, Noida - 201301, UP, India | Tel: +91 120 5057000

Registered Office: M-140, Greater Kailash, Part-II, New Delhi - 110048

CIN No.: L72900DL2012PLC244966

Website: www.RateGain.com

E-Mail: help@rategain.com

PARSVNATH LANDMARK DEVELOPERS PRIVATE LIMITED Regd. Office: Parsynath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032 CIN: U45201DL2003PTC122489, Tel.: 011-43050100, 43010500; Fax: 011-43050473 E-mail: secretarial@parsvnath.com; website: www.parsvnath.com/pldpl Extract of Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2024

(₹ in Lakhs)

SL.	Particulars	Quarter ended 30-06-2024	Quarter ended 30-06-2023	Year ended 31-03-2024
NO.		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,104.66	655.98	5,590.53
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(44.86)	(2,530.73)	(6,471.15)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(44.86)	(2,530.73)	(6,471.15)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(221.89)	(3,425.25)	(7,365.67)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(221.89)	(3,425.25)	(7,366.73)
6	Paid up Equity Share Capital	328.21	328.21	328.21
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(32,313.60)	(28,149.74)	(32,091.70)
8	Net worth	(31,985.39)	(27,821.53)	(31,763.49)
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	-	-	
10	Debt Equity Ratio	(0.50)	(0.61)	(0.54)
11	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic:	(6.76)	(104.36)	(224.46)
П	2. Diluted:	N.A.	N.A.	N.A.
12	Debenture Redemption Reserve	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13	Capital Redemption Reserve	-		-
14	Debt Service Coverage Ratio	(0.03)	(1.94)	(1.13)
	(Since earnings before interest and tax is Negative)			
15	Interest Service Coverage Ratio	-	(1.94)	(1.13)
	(Since earnings before interest and tax is Negative)			
a) T	TES: The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stor			

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the financial results are available on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and the Compnay (www.parsvnath.com/pldpl). b) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made to BSE Ltd.

and can be accessed on the URL www.bseindia.com. c) The above financial results have been approved by the Board of Directors in the meeting held on 10 August, 2024. Figures for the

year ended March 31, 2024 have been taken as audited. d) The Company has not received any complaint from the investor during the quarter ended June 30, 2024 and there was no complaint

pending at the beginning of the quarter e) Figures for the previous year/period have been regrouped for the purpose of comparison.

> For and on behalf of the Board Parsynath Landmark Developers Pvt Ltd

Place : Delhi Dated: August 10, 2024 Surya Mani Pandey Director DIN: 08250346

PARSVNATH ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED Regd. Office: Parsynath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110 032

CIN: U45400DL2007PTC166218, Tel.: 011-43050100, 43010500; Fax: 011-43050473 E-mail: secretarial@parsvnath.com

website: www.parsvnath.com/investors/iulr/subsidiary-companies/pedpl/about-us-2-2/ Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30 June, 2024

_	X224		60	(₹in Lakhs)
SL. No.	Particulars	Quarter ended 30-06-2024	Quarter ended 30-06-2023	Year ended 31-03-2024
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,968.24	1519.41	7,309.14
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,916.18)	(4721.11)	(18,568.77)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,916.18)	(4721.11)	(18,568.77)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(4,916.18)	(4721.11)	(18,578.12)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4,916.18)	(4721.11)	(18,578.15)
6	Paid up Equity Share Capital	500.00	500.00	500.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(1,06,321.50)	(87548.30)	(1,01,405.35)
8	Net worth	(1,05,821.50)	(87048.30)	(1,00,905.35)
9	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,49,432.52	152949.91	1,45,921.76
10	Debt Equity Ratio	(1.23)	(1.51)	(1.30)
11	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	19		
	1. Basic:	(98.32)	(94.42)	(94.42)
	2. Diluted:	N/A	N/A	N/A
12	Capital Redemption Reserve		- 1	-
13	Debenture Redemption Reserve		- 1	-
14	Debt Service Coverage Ratio	0.21	0.24	0.26
_				

15 Interest Service Coverage Ratio

- a) The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the financial results are available on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com) and the Compnay (www.parsvnath.com/investors/iulr/subsidiarycompanies/pedpl/about-us-2-2/).
- b) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the Listing Regulations, the pertinent disclosures have been made to BSE Ltd. and can be accessed on the URL www.bseindia.com.
- The above financial results have been approved by the Board of Directors in the meeting held on 10 August 2024. d) Debenture Redemption Reserve has not been created due to net losses as at 30.06.2024.
- e) The Company has not received any complaint from the investor during the quarter ended 30 June, 2024 and there was no
- complaint pending at the beginning of the quarter. Figures for the previous year/period have been regrouped for the purpose of comparison

For and on behalf of the Board Parsynath Estate Developers Private Limited Surva Mani Pandey

Place : Delhi Dated: August 10, 2024

Director DIN: 08250346

DRC SYSTEMS

Place: Gandhinagar

Date : August 12, 2024

DRC SYSTEMS INDIA LIMITED

[CIN: L72900GJ2012PLC070106]

Registered Office: 24th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar - 382 355, Gujarat, India

Tel: +91 79 67772222 Email: ir@drcsystems.com Website: www.drcsystems.com

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of DRC Systems India Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 17, 2024 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM in compliance with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 2/2022 dated May 05, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and relevant circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, and Circular No SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI).

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2023-24 will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories unless any Member has requested for a physical copy of the same by writing to the Company at ir@drcsystems.com. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2023-24 will also be available on the website of the Company at www.drcsystems.com, websites of the Stock Exchanges i.e. the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Link Intime India Private Limited ("Link Intime") at https://instavote.linkintime.co.in. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. Participation of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for attending the AGM through VC/OVAM will be provided in the Notice of the AGM.

The Company will provide the facility of remote e-voting prior to the meeting as well as e-voting during the meeting to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting will be available in the Notice of the AGM.

In case of a Member whose e-mail address is not registered / updated with the Company/ RTA Depository Participant(s) ("DP"), please follow the following steps to register the email address for obtaining Annual Report along with AGM notice of the Company and login details for e-voting: a) For Members holding shares in Physical mode - please provide necessary details like Folio

- No., Name of shareholder by email to ir@drcsystems.com or by duly filed in E-communication Registration form available on the website of the Company i.e. www.drcsystems.com. b) Members holding shares in demat mode can get their E-mail ID registered by contacting
- their respective Depository Participant.

The Notice of the AGM of the Company will be sent to the Shareholders holding shares as on cutoff date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

> For, DRC Systems India Limited Sd/

Jainam Shah **Company Secretary** **FINANCIAL EXPRESS**

AETHER INDUSTRIES LIMITED Registered and Corporate Office: Plot No. 8203, GIDC

Sachin, Surat - 394230, Gujarat, India Website: www.aether.co.in, Email: compliance@aether.co.in; CIN: L24100GJ2013PLC073434

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Aether Industries Limited will be held on Tuesday, September 10, 2024 at 16:00 Hrs. (IST) through VC / OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Rules made thereunder, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular"), and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") to transact the business set forth in the Notice of 12th AGM of the Company ('AGM Notice').

Electronic dissemination of the AGM Notice & Annual Report: In compliance with the

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF AETHER INDUSTRIES LIMITED

MCA Circulars 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, read with Circular number SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, along with SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 ('SEBI Circulars'), the AGM Notice and the Annual Report for Fiscal Year 2023-24 will be sent by electronic mode to those Members whose email address is registered with the Depositories / Company's Registrar and Share Transfer Agent viz, Link Intime India Private Limited. The Annual Report for Fiscal year 2023-24 including, the AGM Notice will also be available on the Company's website at: https://aether.co.in/investor-relations/#financial-performance-and-presentation_on website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at: https://www.evotingindia.com/noticeResults.jsp and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') at: https://www.bseindia.com/ and The National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at: https://www.nseindia.com/ Members can attend the AGM through VC/OAVM facility only at https://www.evotingindia.com/. The instructions for joining the AGM will be provided in the AGM Notice. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

E-voting: Company is providing the facility to the Members to cast their votes on the business set forth in the AGM Notice through remote e-voting. Detailed procedure for remote e-voting is outlined in the AGM Notice. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and Members attending the AGM, who have not casted their votes by remote e-voting, will be able to vote at the Meeting.

Members whose e-mail IDs are not registered, may refer the procedure outlined in the AGM Notice for procuring User ID and password and registration of e-mail ID for e-voting. As there is no recommendation of the Board on dividend, related details are not

Members who have not registered / updated their e-mail address and / or bank account details, are requested to register / update the same in the records of the Company / Depository, as the case may be, in the following manner:

Members holding shares in Demat Form Through their respective Depository For Aether Industries Limited

Chitrarth Rajan Parghi Date: August 12, 2024 Place: Surat Company Secretary & Compliance Officer

RateGain®

RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L72900DL2012PLC244966

Regd. office :- M-140, GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI - 110048, INDIA

Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financials Results

for the guarter ended June 30, 2024 (in ₹ million, except for share data and if otherwise stated)

			rear ended		
Particulars		June 30, 2024	March 31, 2024	June 30, 2023	March 31, 2024
		(Un-audited)	(refer note 3)	(Un-audited)	Audited
1.	Total Income	2782.82	2768.57	2204.63	9985.86
2.	Income from operations	2600.13	2558.10	2144.78	9570.31
3.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	582.38	654.51	321.14	1888.72
1.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	582.38	654.51	321.14	1888.72
j.	Net Profit for the period/year tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	453.75	500.24	249.09	1453.93
1	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	442.02	484.00	206.27	1505.53
1.	Equity Share Capital	117.78	117.78	108.32	117.78
3.	Other equity	3.5	38		14386.93
9.	Basic and diluted earnings per share (Face Value of INR 1 each) Basic EPS	3.85 (Not) annualised	4.25 (Not annualised)	2.30 (Not annualised)	13.01
	Diluted EPS	3.81 (Not annualised)	4.20 (Not annualised)	2.28 (Not annualised)	12.84

- The above consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as 'Ind AS') as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- The above consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2024. The Statutory Auditors have carried out limited review of the financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024.
- Figures for the quarter ended 31 March 2024 is balancing figures between audited figures for the full financial year and the reviewed year-to-date figures upto the third guarter of the financial year. The above information is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results filed by the company with the
- stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above financial results are available on the Stock Exchange websites, (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.rategain.com
- The summary of the Unaudited standalone financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2024 is given below:

		Quarter ended					
Particulars	June 30, 2024 (Un-audited)	March 31, 2024 (refer note 3)	June 30, 2023 (Un-audited)	March 31, 2024 Audited			
Total Income	655.37	677.30	448.95	2212.28			
Income from operations	494.49	492.71	384.15	1733.92	ı		
Net Profit before tax	188.94	243.49	69.41	594.15			
Net Profit after tax	143.04	179.34	51.69	438.69			
		-			ł		

For and on behalf of the Board of Directors RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED

Place : Delhi (Chairman and Managing Director) Date : August 12, 2024 OTUS













KAMAT HOTELS (INDIA) LIMITED Read, Office: 70-C, Nehru Road, Near Santacruz Airport, Vile Parle (East), Mumbai 400 099.

CIN: L55101MH1986PLC039307, Website: www.khil.com, Email:cs@khil.com, Tel. No. 022 26164000

EXTRACT OF UNAUDITED STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2024 (₹ in Lakhs)

		Standalone				Consolidated			
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31,03,2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from Operations	5,031.08	6,195.72	5,153.51	22,291.39	7,375.62	8,451.34	6,961.67	30,434,52
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)	82.36	675.44	583.37	2,421.18	(77.46)	822,26	557.75	2,440.39
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	82.36	675.44	283.37	5,373.62	195.64	822.26	257.75	5,392.83
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	40.55	123.01	136.93	4,523.95	106.73	212.78	111.21	4,484.72
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	UCCAPON I	123.65	148.80	4,542.37	107.56	214.95	125.14	4,513.32
7	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Equity Share Rs.10/- each) (including forfeited shares) Other equity (Reserves excluding revaluation reserves) Earnings per share (EPS) (Face value of Rs.10/- each)	2,712.06	2,649.50	2,524.14	2,649.50 27,120.44	2,712.06	2,649.50	2,524,14	2,649,50 17,913,71
0	Basic (In Rupees) Diluted (In Rupees)	0.15 0.14	0.48 0.43	0.56 0.50	17.67 15.94	0.39 0.37	0.82 0.74	0.45 0.41	17.52 15.80

under section 133 of the Companies Act, 2013 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results are available on the Stock Exchange websites- www.bseindia.com / www.nseindia.com and also on the Company's website

Previous period figures have been re-arranged / re-grouped wherever necessary to make them comparable with current period figures. Breakup of exceptional item included in above results is tabulated below

200		Standalone			Consolidated				
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1 2	Income Profit on Sale / Discard of Property Plant and Equipment Tds Refund Received (2010)	8.			3,252.44	273.10		0	3.252.44
Ti-	Sub-total (A)		100	(3,252.44	273.10	100	1.83	3,252.44
1	Expenses Provision for Contingencies		520	300.00	300.00	333331130399	31.5	300.00	300.00
8	Sub-total (B)		(1.e.):	300.00	300.00	(4.5)	11.0	300.00	300.00
	Total (A-B)			(300.00)	2.952.44	273.10		(300.00)	2,952.44

12th August, 2024

Kamat Hotels (India) Limited Dr. Vithal V. Kamat Executive Chairman and Managing Director



Camlin CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED

CIN: L74100MH1993PLC075361

Registered Office: Floor 2 to 5, Building "in G. S. Point", C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400 098, India. Tel: 91-22-67001000; Fax: 91-22-28324404; Email: secretarial@camlinfs.com: Website: www.camlinfs.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED JUNE 30, 2024

No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED				
		QUARTER ENDED			YEAR ENDED	QUARTER ENDED			YEAR ENDED	
		30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	
- 22		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income from Operations	18,191.22	22,032.97	16,111.16	77,326.21	39,585.33	40,169.38	41,960.26	1,61,306.20	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1,759.69)	(4,675.36)	726.22	(5,770.40)	(2,348.06)	(4,370.17)	1,607.72	(4,943.95)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1,759.69)	(4,868.20)	726.22	(5,963.24)	(2,348.06)	(9,350.57)	1,607.72	(9,924.35)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(1,368.01)	(4,407.30)	578.04	(5,138.92)	(3,465.02)	(8,178.51)	1,201.67	(10,487.51)	
5	Net Profit / Loss for the period after tax and non-controlling interests (after exceptional items)					(3,395.41)	(7,713.94)	1,555.46	(9,275.34)	
6	Total Comprehensive Income for the period	(1,312.71)	(4,429.79)	709.01	(5,143.38)	(4,059.89)	(8,270.81)	1,699.11	(8,691.10)	
7	Equity Share Capital	1,674.95	1,674.65	1,673.52	1,674.65	1,674.95	1,674.65	1,673.52	1,674.65	
8	Other Equity	S DIVIEWS CONTROLS	Colo and color of the	OCWONIACO SERVI	69,896.76	INFO SCHOLOUSE SELL.	ALIGNA TUNELLA	APRINCIS/1018111	84,800.43	
9	Earnings per share (of ₹ 1/- each) (not annualised)								Proceedings of the Control of State of Control	
	- Basic ₹	(0.82)	(2.65)	0.36	(3.09)	(2.03)	(4.64)	0.96	(5.58)	

The above information is an extract of the detailed format of unaudited results for the guarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited results for the quarter June 30, 2024 are available on the Company's website at www.camlinfs.com and the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

(2.61)

0.35

(3.05)

New Delhi

FOR CAMLIN FINE SCIENCES LIMITED

(4.58)

0.94

(5.50)

Place: Mumbai

Diluted ₹

Date : August 12, 2024





(0.81)





(2.01)



Chairman & Managing Director DIN: 01077379

Ashish S. Dandekar

(₹ in Lakh)

financialexp.epapr.in

मोहनान थ्रायिल

INERTIA STEEL LIMITED

("INERTIA"/ "ISL" / "TARGET COMPANY"/ "TC") (Corporate Identification No. L51900MH1984PLC033082)

Registered Office: Shop No 155 Second Floor, Raghuleela Mall, Borsa Pada Road, Poiser Borivali West,

Kandivali West, Mumbai, Maharashtra, India, 400067; Phone No.: +91-7030595007; Email id: contact@inertiasteel.com; Website: www.inertiasteel.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of Inertia Steel Limited ("ISL" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)

Date	12.08.2024
Name of the Target Company	Inertia Steel Limited
Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer to acquire up to 31,14,488 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company, to be acquired by the Acquirers, at a price of Rs. 18.00/- per Equity share payable in cash in terms of Regulation 3(1) and Regulation 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
Name(s) of the Acquirers	Mr. Karbhari Pandurang Dhatrak (Acquirer-1), Mrs. Jayashree Karbhari Dhatrak (Acquirer-2) and Mr. Chetan Karbhari Dhatrak (Acquirer-3) (Acquirer-1, Acquirer-2 and Acquirer-3 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers")
Name of the Manager to the offer	Navigant Corporate Advisors Limited
Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Chairman; Mr. Dhiren Ashok Bontra Member: Mr. Jeny Vinod Kumar Gowadia
	IDC Members are the Independent Directors of the Target Company. Neither Chairman nor Member of IDC holds any equity shares in the Target Company. None of them have entered into any other contract or have other

Company by IDC Members other securities of the Target Company. IDC Member's relationship with the acquirers (Director, None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers. Equity shares owned, any other contract / relationship), if Trading in the Equity shares/other securities of the Not Applicable acquirers by IDC Members

Trading in the Equity shares/other securities of the Target No trading has been done by the IDC Members in the equity shares/

relationship with the Target Company.

Recommendation on the Open offer, as to whether the The IDC Members believes that the Open Offer is fair and reasonable. offer, is or is not, fair and reasonable However, the shareholders should independently evaluate the Offer and take informed decision in the matter. Summary of reasons for recommendation IDC recommends acceptance of the Open offer made by the

> share is fair and reasonable based on the following reasons: The Offer price appears to be reasonable considering book value. & profitability of the Company. 2. The equity shares of the Target Company are infrequently traded shares within the meaning of explanation provided in Regulation

Acquirers as the Offer price of Rs. 18.00/- per fully paid -up equity

2(j) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. 3. The offer price of Rs. 18.00/- per fully paid -up equity share offered by the Acquirers is equal to fair value of equity share of the Target Company which is Rs. 18/- (Rupees Eighteen only) as certified by Alpa N. Dhami, Independent Valuer, (Membership) No. 102514), Proprietor of A. N. Dhami, Chartered Accountants, having their office situated at 503, Iccha Kutir, Vayudevyta Complex, Devidas Road, Borivali West, Mumbai-400103; Tel. No: +91 9819593929; Email: alpa.dhami@gmail.com vide valuation certificate dated June 03, 2024. (UDIN: 241014BKILGA6326).

Keeping in view above facts IDC is of opinion that Open Offer price is fair and reasonable and is in accordance with the relevant regulations prescribed in the Takeover Code and prima facie appear to be None:

Any other matter to be highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA. DPS and LOF.

For Inertia Steel Limited

Mr. Dhiren Ashok Bontra

Place: Mumbai Date: 12.08.2024

Details of Independent Advisors, if any

Chairman-Committee of Independent Directors DIN: 09591605

AUTHUM ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरीमन पाइंट, मुंबई-400 021. फोन: (022) 6747 2117 फैक्स: (022) 6747 2118 ई-मेल: info@authum.com

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] [ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट--IV-A) (नियम 8(6)] यह कि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर 7 जून, 2019 के आरबीआई परिपत्र, 3 मार्च, 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और 25 मार्च, 2023 को शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के अपने ऋणदाताओं द्वार अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, आरएचएफएल ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ('आरसीएफएल') को एक गोइंग कंसर्न के आधार पर स्लम्प बिको के माध्यम से अपना व्यवसाय हस्तांतरित करने के लिए समझौता किया है और जबकि कर्जदार के ऋण खाते (खातों) से संबंधित सभी अधिकार और देयताएं भी आरसीएफएल को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('एआईआईएल') (परिणामी कंपनी, एनसीएलटी के आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुसार रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ('आरसीएफएल') से एआईआईएल को ऋण कारोबार के डीमर्जर के अनसरण में), जिसका कॉपोरेंट कार्यालय रूबी 11वीं मंजिल, उत्तर-पश्चिम विंग, प्लॉट संख्या 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई- 400028 (महाराष्ट्र) में है और शाखा कार्यालय:- 7वीं मंजिल, सिनर्जी टॉवर ए-13/1 ब्लॉक ए सेक्टर 62 नोएडा है, बंधक अचल संपत्ति की बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत है। जबिक ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ('एओ') ने निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसरण में ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बकाए की वसुली के लिए ''जहां है जैसा है और जो है जैसा है'' के आधार पर इसे बेचने के अधिकार के साथ निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है, बिक्री वेबसाइट www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

ाताथ आराक्षत मूल्य, जमा धराहर
राशि∕बोली वृद्धि राशि
表. 41,00,000/-
(रुपये) इकतालीस
/- लाख मात्र)
व्र आठ 📗 जमा धरोहर राशि (ईएमडी) :
स एवं रु. 4,10,000/-
त्र) (रुपये चार लाख
24 तक दस हजार मात्र)

अचल संपत्ति ∕प्रतिभृत परिसंपत्ति का विवरण: संपत्ति फ्लैट नंबर बी -5 का समस्त भाग, दुसरी मंजिल क्षेत्रफल 96.76 वर्ग मीटर, कृष्णा अपार्टमेंट प्लॉट नंबर III-ई / 29-ए. आवासीय कॉलोनी नेहरू नगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश -201001 में स्थित। सम्पत्ति के निरीक्षण की विशि ई-नीलामी की तिथि∕समय **:** ईएमडी की अन्तिम तिथि 27 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप. 30 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप.

भगतान का तरीकाः - सभी भगतान नोएडा में देय ''ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड'' के पक्ष में डिमांड डाफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खाते का विवरण निम्नानुसार है: ए) खाते का नाम: ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बी) बैंक का नाम: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सी) खाता संख्या: 99999917071983, डी) आईएफएससी कोड: HDFC0001119

कृपया विस्तृत नियम व शर्तों के लिए वेबसाइट देखें (कोड: 174487 का उपयोग करें और एनआईटी दस्तावेज देखें)

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/	मांग सूचना की	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर
गारंटर(रों) के नाम	तिथि तथा राशि	कुल बकाया	राशि∕बोली वृद्धि राशि
ऋण खाता सं.	तिथि : ७ अक्टूबर, २०२१	27 दिसम्बर, 2024	रु. 16,00,000∕-
RHAHDEL000065252	तथा	कुल बकाया	(रुपये सोलह
शाखा : दिल्ली	₹. 20,77,827/-	₹. 3326211.58/-	लाख मात्र)
1. छत्तरपाल सिंह	(रुपये बीस लाख सतहत्तर हजार	(रुपये तैंतीस लाख छब्बीस हजार दो	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) :
2. देवेन्द्र चन्द्र प्रकाश	आठ सौ सत्ताईस मात्र)	सौ ग्यारह और अट्ठावन पैसे मात्र)	रु. 1,60,000∕-
3. नीलम छत्तरपाल सिंह	तिथि ०६ अक्टूबर, २०२१ तक	तिथि 22 जुलाई, 2024 तक	(रुपये एक लाख
	i i		साठ हजार मात्र)

ि अचल संपत्ति∕प्रतिभत परिसंपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर एसएफ−1. द्वितीय तल. एमआईजी. फ्रंट साइड आरएचएस. प्लॉट नंबर सी−200 पर. एसएलएफ वेद विहार, परगना और तहसील लोनी, गांव सादल्लाहबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201101 में संपत्ति का समस्त भाग।

र्इएमडी की अन्तिम तिथि 27 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप. | 30 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप. भगतान का तरीकाः - सभी भगतान नोएडा में देय ''ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड'' के पक्ष में डिमांड डाफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खाते का विवरण निम्नानसार है: ए) खाते का नाम: ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड.

बी) बैंक का नामः एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सी) खाता संख्याः 99999917071983, डी) आईएफएससी कोडः HDFC0001119

कृपया विस्तृत नियम व शर्तों के लिए वेबसाइट देखें (कोड: 174490 का उपयोग करें और एनआईटी दस्तावेज देखें) (https:// www.bankeauctions.com)

भौतिक कब्जे की तिथि कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/ मांग सुचना की आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर तिथि तथा राशि गारंटर(रों) के नाम राशि/बोली वृद्धि राशि कुल बकाया ₹. 13,50,000/-तिथि : 16 जुलाई, 2019 ऋण खाता सं. 29 फरवरी, 2024 (रुपये तेरह लाख RHAHDEL000073732

पचास हजार मात्र) शाखा : दिल्ली रु. 17,10,724/-₹. 3760615.39/-्रुपये सैंतीस लाख छः हजार छः सौ जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रुपये सत्रह लाख दस 1. मोहन यादव हजार सात सौ चौबीस मात्र) ₹. 1,35,000/-पन्द्रह एवं उनतालीस पैसे मात्र) 2. राधा यादव (रुपये एक लाख तिथि 15 जुलाई, 2019 तक तिथि 22 जुलाई, 2024 तक पैंतीस हजार मात्र)

अचल संपत्ति/प्रतिभत परिसंपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर यजी-4 यजीएफ ब्लॉक-ई अनमोल रेजीडेंसी गांव-गिरधरपर सनारसी दादरी जिला गौतमबद्धनगर उ.प्र.

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 की सम्पत्ति का समस्त भाग। ई−नीलामी की तिथि⁄समय : सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : ईएमडी की अन्तिम तिथि 27 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप. 🛮 30 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप. 3 अक्टूबर, 2024

भगतान का तरीका: - सभी भगतान नोएडा में देय ''ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड'' के पक्ष में डिमांड डाफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खाते का विवरण निम्नानुसार है: ए) खाते का नाम: ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बी) बैंक का नाम: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सी) खाता संख्या: 99999917071983, डी) आईएफएससी कोड: HDFC0001119

कुपया विस्तृत नियम व शर्तों के लिए वेबसाइट देखें (कोड: 174492 का उपयोग करें और एनआईटी दस्तावेज देखें) (https:// www.bankeauctions.com)

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम व शर्तै:-

1. संपत्ति ''जहां है जैसा है और जो है जैसा है आश्रय रहित आधार'' पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर- 68, तीसरी मंजिल सेक्टर 44 गुड़गांव हरियाणा -122003 (संपर्क नंबर 7291981124,25,26) से संपर्क कर सकते हैं। सहायता ई-मेल - Support@ bankeauctions.com. श्री भाविक पंड्या मोबाइल। 8866682937, ईमेलः Gujarat@c1india.com

- 3. अधिक जानकारी और पृछताछ के लिए, प्राधिकृत अधिकारी पंकज जयंत मोबाइल नम्बर 9999748087 से संपर्क करें। 4. यह प्रकाशन प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को
- उपरोक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिकी आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिन का नोटिस भी है। स्थान : दिल्ली. दिनांक : 13.08.2024 हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

मै. लिटिल रॉक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लि.

CIN: L52100UP1981PLC202870 पंजी. कार्यालयः बी-38, भृतल, इंस्टीच्युशनल एरिया, सेक्टर-1, नोएडा (उ.प्र.)-201301 वेबसाईटः www.lrtil.co.in, ईमेलः lrtil1981@yahoo.com/investors@yahoo.com, फोनः +91-120-4939945 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सार

क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
सं.		30.6.2024 (अनंकेक्षित)	30.6.2023 (अनंकेक्षित)	31.3.2024 (अंकेक्षित)
_		(अनकाक्त)	(अनकाक्ता)	(अकाक्त)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-] -	-
2.	कुल व्यय	1.03	0.73	1.03
3.	कर एवं विशिष्ट तथा असाधारण मदों से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)	1.03	0.73	1.03
4.	कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों			
100	के बाद)	1.03	(0.73)	1.03
5.	कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि)	(1.03)	(2.65)	1.03
6.	कर से बाद अवधि के लिये कुल व्यापक आय	(1.03)	(2.65)	1.03
7.	इक्विटी शेयर पूंजी	124.90	124.90	124.90
8.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित छोड़कर)		_	124.03
9.	आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (सम मूल्य रु. 10/- प्रति शेयर) मूल एवं तरल	(0.08)	(0.21)	(44.33)
टिपाप	A.			

क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.lrtil.co.in तथा सीएसईः www.cse-india.com पर उपलब्ध है।

ख) उक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 अगस्त, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल

ग) विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को इंड एएस नियमावली के अनुसार लाभ तथा हानि के विवरण में समायोजित किया गया है। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से लिटिल रॉक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लि.

स्थानः नोएडा तिथि: 12.8.2024

BRILLIANT PORTFOLIOS LIMITED

Regd. Office: B - 09, 412, ITL Twin Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110068 CIN NO: L74899DL1994PLC057507, Website: www.brilliantportfolios.com Tel: 011-45058963, Email: brilliantportfolios@gmail.com

Extract of Statement of Unaudited Results for the Quarter Ended 30/06/2024

Particulars	Quarter ending 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ending 31.03.2024 (Audited)	Quarter ending 30.06.2023 (Unaudited)	Year ending 31.03.2023 (Audited)
Total Income From Operations (Net)	74.04	81.58	74.12	305.76
Net Profit/(Loss) for the Period (Before Tax and Exceptional Items)	16.58	0.82	22.40	66.16
Net Profit/(Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional Items)	16.58	0.82	22.40	66.16
Net Profit/(Loss) for the Period After Tax (After Exceptional Items)	12.50	0.87	16.88	49.95
Total Comprehensive Income/(Loss) for the Period	12.50	0.87	16.88	49.95
Equity Share Capital Earning Per Share (Face Value of ₹.10/- Each)	310.18	310.18	310.18	310.18
(a) Basic	0.40	0.03	0.54	1.61
(b) Diluted	0.40	0.03	0.54	1.61

recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 12/08/2024. Note 2: The above is an extract of the detailed format of financial results for the financial results for the

Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the financial results for the Quarter ended June 30, 2024 is available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company Website www.brilliantportfolios.com Note 3: The figures of the previous period/year have been regrouped/rearranged wherever necessary to

make them comparable with the current period's figures. For and on behalf of the Board of Directors of **Brilliant Portfolios Limited**

RAVI JAIN MANAGING DIRECTOR

(DIN - 02682612)



Place: New Delhi

Date: 12/08/2024

जम्मू और करमीर बैंक लिमिटेड क्लस्टर कार्यालय लखनऊः अकबरी गेट क्रॉसिंग, अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ, पिन-226003, यूपी। ई:- cluluck@jkbmail.com, वेब:- www.jkbank.net कॉर्पोरेट मुख्यालयः एम ए रोड, श्रीनगर 190001 जम्मु और कश्मीर, भारत जीएसटीआईएनः 01AAACT6167G1ZL

कब्जा सुचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत नोटिस स्रक्षा (प्रवर्तन) हित नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पिता। जबिक नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन

(सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत **जम्मू और करमीर बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 15.05.2024 को 13(2) जारी करके उधारकर्ता अर्थात श्री नादिर हसन पत्र श्री सय्यद हसन (संपत्तिरू मेसर्स नादिर हैंडीक्राफ्टस) निवासी 11 / 1255, मोहल्ला महेंदी सराय, थाना कोतवाली मंडी, सहारनपूर, उत्तर प्रदेश- 247001 को रुपये की राशि 7,61,651.79 (सात लाख इकसठ हजार छह सौ इक्यावन रुपये और उनहत्तर पैसे मात्र) जो कि ऋणी के खाते में 30.04.2024 तक बकाया शेष है, उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर उस पर भविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए कहा है।

उक्त ऋणी द्वारा उक्त राशि का भगतान करने में असफल रहने के कारण, विशेष रूप से उक्त ऋणी को तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि जे एंड के बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, नीचे वर्णित बंधक संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 07 अगस्त 2024 ले लिया है।

विशेष रूप से उक्त उधारकर्ता और आम जनता को किसी भी तरह से उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन करने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **जे एंड के बैंक** लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी कुल राशि रु. 7,61,651.79 (सात लाख इकसठ हजार छह सौ इक्यावन रुपये और उनहत्तर पैसे मात्र) होगी, साथ ही उस पर 01.05.2024 से भविष्य का ब्याज और अन्य व्यय जो हए हैं या होने वाले हैं।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण एक आवासीय मकान, जिसके नीचे जमीन है, खसरा संख्या 2037/1 मीटर में शामिल है, जिसका माप

150 वर्ग गज है, जो 125.41 वर्ग मीटर के बराबर है, जिसका माप **पूर्व पश्चिम** 28.8 फीट, **उत्तर दक्षिण** 47 फीट है, जो दारा अली स्वाद, सहारनपुर में स्थित है, जिसे आमतौर पर नदीम कॉलोनी, सहारनपुर के नाम से जाना जाता है, श्री नादिर हसन पत्र लेपिटनेंट श्री सैयद हसन के नाम पर, जिसकी सीमा

"पूर्वः रास्ता 20 फीट उत्तरः रास्ता 20 फीट पश्चिमः दूसरों का प्लॉट दक्षिणः दूसरों का प्लॉट"

दिनांकः 07.08.2024 स्थानः सहारनप्र

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी. जम्मू और करमीर बैंक लिमिटेड

PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 ("EXIT CIRCULAR") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CROWN TRADERSLIMITED CIN: U51909DL1984PLC019356

Registered Office: 2888, 2nd Floor, Hauz Quazi, Lal-Qua Bazaar,

Sikri Walan, Hauz Qazi, Delhi-110006 Email: crowntraders 1984@gmail.com, Tel. No: +91 011-23682636

This Exit Offer Public Announcement ("Exit Offer PA") is being issued by Mr. Amit Bansal son of Mr. Krishan Kumar Bansal, aged about 58 years and currently residing at R-7, R Block, Greater Kailash, New Delhi-110048 with PANAALPB3066E ("Offering Promoter") one of the Promoter of M/s Crown Traders Limited ("the Company"), on behalf of the Promoters of Crown Traders Limited, to provide an exit opportunity to the Public Shareholders of the Company in terms of the circular issued by Securities & Exchange Board of India ("SEBI") bearing no. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated 10th October, 2016 and further amendments/circulars issued thereafter

The equity shares of your Company were listed on the Delhi Stock Exchange Limited DSE) and Vadodara Stock Exchange and then was later on shifted to the Disseminatio Board ("DB") of BSE Limited ("BSE") SEBI, vide the Exit Circular has stipulated the procedure for exit of Exclusively

Listed Companies ("ELCs") from the DB. In terms of para (i) of Annexure A of the Exit Circular, the Promoter has appointed Almondz Financial Services Limited, a Merchant Banker registered with SEBI. Almondz Financial Services Limited, a 100% subsidiary of Almondz Global Securities Limited, has acquired its merchant banking registration from Almondz Global Securities Limited which was empaneled as an Expert Valuer on the panel of BSE. The said Independent Valuer, after taking into account the applicable valuation methodologies, has issued its valuation report dated August 12, 2024 and determined the fair value of One Equity Share of the Company as INR (0.43) (Negative Indian Paisa Forty Three only). Other Details:

Shareholding: As on the date of this Exit Offer PA, the issued and paid up capital of the Company is 19,99,700 equity shares of Rs. 10 each aggregating to Rs. 1,99,97,000 (Rupees One Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Seven Thousand only). Out of total paid up capital, Promoters collectively hold 7,06,657 Equity Shares representing 35.34% of the Paid-up Equity Share Capital and balance 12,93,043 Equity Shares representing 64.66% of the Paid-up Equity Share Capital are held by Public Shareholders. The Offering Promoter has undertaken to complete the exit obligation in terms of the Exit Offer.

Para (ii) of Annexure A to the said SEBI Circular states that in case the fair value of Equity Shares determined by the Independent Valuer is positive, the Promoter of the Company shall acquire the shares from the public shareholders by paying them such value as determined by the Independent Valuer.

In the present case, the fair value determined by the Independent Valuer being negative The Offering Promoter will not acquire any shares from the public shareholders with no liability to make any payment to the said shareholders.

In view of the above, the Company will be making an application to BSE, requesting them to remove the name of the Company from the Dissemination Board of BSE Further, the Company undertakes to redress the grievances of the public shareholders if any, in this regard.

This Exit Offer PA is available at the website of BSE at www.bseindia.com and on

the website of Independent Valuer at www.almondzfinancial.com For and on behalf of Promoters of Crown Traders Limited

Place: Delhi Date: August 13, 2024

Amit Bansal Offering Promoter alandmark लैण्डमार्क प्रॉपर्टी करमार बर्ग डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 दुरभाष नं. : 91 43621200 फैक्स : (011) 41501333

वेबसाइट : www.landmarkproperty.in ई-मेल : info@landmarkproperty.in

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(રુ. ભાલ						
क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
सं.		रु.∕लाख 30 जून, 2024	रु.∕लाख 31 मार्च, 2024	रु.∕लाख 30 जून, 2023	रु.∕लाख 31 मार्च, 2024	
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
1	कुल आय	52.89	44.33	55.84	172.62	
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर एवं असाधारण मदों से पूर्व)	8.09	(1,195.97)	24.58	(1,159.68)	
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	8.09	(1,195.97)	24.58	(1,159.68)	
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	5.72	(1,201.16)	18,48	(1,172.05)	
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	5.72	(1,201.09)	18.48	(1,171.98)	
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रति)	1,341.43	1,341.43	1,341.43	1,341.43	
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	8.			3,027.37	
8	आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य रु. 1/- प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल (रु. में)	0.00	(0.90)	0.01	(0.87)	
	ख) मूल (रु. म) ख) तरल (रु. में)	0.00	(0.90)	0.01	(0.87)	

टिप्पणी: 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई विशिष्ट मद नहीं हैं।

उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.landmarkproperty.in पर उपलब्ध हैं।

लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के लिए

स्थानः नर्ड दिल्ली तिथि: 12 अगस्त, 2024 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059950 Registered Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Email: info@pushpsons.com Phone: 011-41610121 Fax: 011-41058461

> Extract of the standalone unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024

> > (Rs. In Lakhs)

गौरव डालमिया

SI. No.	Particulars	3 Months ended 30/06/2024 (Unaudited)	3 Months ended 30/06/2023 (Unaudited)	Year ended 31/03/2024 (Audited)
1	Total income from operations	76.11	62.97	407.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5.85	-5.55	38.55
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.85	-5.55	38.55
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5.85	-5.55	38.55
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5.39	-5.66	39.98
6	Paid up Equity Share Capital	527.05	527.05	527.05
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	0.00	0.00	-84.12
8	Securities Premium Account	0.00	0.00	0.00
9	Net Worth	0.00	0.00	442.93
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	0.00	0.00	0.00
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	0.00	0.00	0.00
12	Debt Equity Ratio	0.00	0.00	0.15
13	Earning Per Share (of Rs. 10/- each)(for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.12	-0.12	0.86
	2. Diluted:	0.12	-0.12	0.86
14	Capital Redemption Reserve	0.00	0.00	0.00
15	Debenture Redemption Reserve	0.00	0.00	0.00
16	Debt Service Coverage Ratio	0.00	0.00	4.79
17	Interest Service Coverage Ratio	0.00	0.00	0.00

NOTES:

The above is an extract of the detailed format of Statement of Standalone Un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly / year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com), and on the Company's website (www.pushpsons.com).

Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

for Pushpsons Industries Limited

(रु. मिलियन में. अंश आँकडा छोडकर और यदि अन्यथा उल्लेखित)

annualised) annualised) annualised)

Place: New Delhi Dated: 12.08.2024

Pankaj Jain Chairman (Director) DIN: 00001923

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड

सीआईएन : L72900DL2012PLC244966 पंजीकृत कार्यालयः एम–140, ग्रेटर कैलाश पार्ट–।। नई दिल्ली 110048, भारत

30 जन 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित समेंकित वित्तीय परिणामों के विवरण का साराँश

			समाप्त वर्ष		
	विवरण	30 जून 2024	31 मार्च 2024	30 जून 2023	31 मार्च 2024
		(अलेखापरीक्षित	(नोट 3 का संदर्भ लें)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	कुल आय	2782.82	2768.57	2204.63	9985.86
2.	परिचालनों से आय	2600.13	2558.10	2144.78	9570.31
3.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	582.38	654.51	321.14	1888.72
4.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपराँत)	582.38	654.51	321.14	1888.72
5.	अवधि / वर्ष हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपराँत)	453.75	500.24	249.09	1453.93
6.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ (कर उपराँत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपराँत) से समाविष्ट)	442.02	484.00	206.27	1505.53
7.	समता अंश पूंजी	117.78	117.78	108.32	117.78
8.	अन्य समतायें		7.9	13.5	14386.93
9.	मूलभूत एवं तरलीकृत आय प्रति अंश (आईएनआर 1 प्रत्येक का अंकित मूल्य) मूलभूत ईपीएस	3.85 (Not) annualised	4.25 (Not annualised)	2.30 (Not annualised)	13.01
00	तरलीकृत ईपीएस	3.81 (Not	4.20 (Not	2.28 (Not	12.84

टिप्पणियाँ :--

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 12 अगस्त 2024

1. उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों को समय–समय पर संशोधितानसार कंपनी (भारतीय लेखाँकन मानक) नियमावली 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारितानुसार भारतीय लेखाँकन मानक ('आईएनडी एएस' के रूप में संदर्भित) के अनुरूप तैयार किया

2. दिनांक 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तृति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी और बाद में निदेशक मंडल ने 12 अगस्त 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनुमोदन किया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 30 जुन 2024 को समाप्त तिमाही के कंपनी के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

3. दिनांक 31 मार्च 2024 की समाप्त तिमाही के आँकड़े, पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आँकड़ों तथा वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही तक समीक्षित वर्षाद्यतन आँकडों के मध्य संतलनकारी आँकडे हैं। 4. उपरोक्त जानकारी, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास

कंपनी द्वारा फाइलबद्ध अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.rategain.com पर भी

5. दिनांक 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के कंपनी के अलेखापरीक्षित पृथक वित्तीय परिणामों का साराँश निम्नानुसार प्रस्तूत है :

विवरण	30 जून 2024	31 मार्च 2024	30 जून 2023	31 मार्च 2024
	(अलेखापरीक्षित)	(नोट 3 का संदर्भ लें)	(अलखापराक्षित)	(लेखापरीक्षित
कुल आय	655.37	677.30	448.95	2212.28
परिचालनों से आय	494.49	492.71	384.15	1733.92
कर पूर्व निवल लाभ	188.94	243.49	69.41	594.15
कर उपराँत निवल लाभ	143.04	179.34	51.69	438.69

निदेशक मंडल हेतु तथा उसकी ओर से रेटगेन टैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड

भानू चोपड़ा

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

www.readwriele.com